



AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"



प्रेसनोट थाना शाहगंज जनपद आगरा । 31.07.2022

एसओजी टीम व थाना शाहगंज पुलिस टीम द्वारा लगातार हो रही चैन सैचिंग की घटनाओं का अनावरण करते हुये 02 अभियुक्तगणों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 मोटर साइकिल(घटना में प्रयुक्त) बरामद...

दिनांक 27.07.2022 को थाना शाहगंज पर तहरीर प्राप्त हुयी कि वादिया अपनी पुत्री स्कूल साकेत काँलोनी से लेकर वापस आ रही थी। एक अज्ञात व्यक्ति, वादी की चैन तोडकर भागने लगा तथा पीछा करने पर मोटरसाइकिल से भाग गया। इस सम्बन्ध में थाना शाहगंज पर मु0अ0सं0 394/22 धारा 392 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया।

दिनांक 26.07.2022 को थाना शाहगंज पर तहरीर प्राप्त हुयी कि वादिया अपने पुत्र को गोद में लिये बाहर टहल रही थी। एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा गले में पहनी चैन छीनने का प्रयास किया और पीछे की ओर भाग गया। उपरोक्त के सम्बन्ध में थाना शाहगंज पर मु0अ0सं0 400/22 धारा 393 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया।

उक्त घटनाओं को गम्भीरता से लेते घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में, क्षेत्राधिकारी लोहामण्डी के सफल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक शाहगंज को पुलिस टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में दिनांक 31.07.2022 को थाना शाहगंज व एसओजी टीम द्वारा संयुक्त चैकिंग की जा रही थी। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि चैन सैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाला मोटरसाइकिल से अभियुक्त पचकुईया की तरफ से आ रहा है। यदि आप जल्दी करें तो पकडा जा सकता है।

पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये मुखबिर के बताये स्थान पर पहुँची। कुछ समय पश्चात 01 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया, पुलिस टीम को देखकर मोटरसाइकिल मोडकर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा पुलिस टीम द्वारा एक वारगी दविश देते हुये चारो ओर से घेर-घोट कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 आधार कार्ड, 01 पैन कार्ड,

01 अदद मोटरसाइकिल(घटना में प्रयुक्त) बरामद हुआ। अभियुक्त की निशानदेही पर अभियुक्त सागर पुत्र मोहन कुमार निवासी वर्मा निवासी 71 अशोक नगर थाना लोहामण्डी जनपद आगरा को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण:-

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अपना नाम सतीश बताया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया गया कि मैं जुआ खेलने का आदि हूँ। मैं कई घटनाओं को अंजाम दे चुका हूँ, थाना जीआरपी, थाना लोहामण्डी से कई बार जेल जा चुका हूँ। दिनांक 27.07.2022 को मैंने इसी मोटरसाइकिल से एक महिला की चैन लूट ली थी। उसी दिन मैंने लूट हुयी चैन को सुनार की दुकान पर बेची दी थी और उस पैसे को जुआ में हार गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. सतीश पुत्र बबलू निवासी 17/384 राजनगर थाना लोहामण्डी जनपद आगरा।(मुख्य अभियुक्त)
02. सागर पुत्र मोहन कुमार निवासी वर्मा निवासी 71 अशोक नगर थाना लोहामण्डी जनपद आगरा

आपराधिक इतिहास का विवरण:-

01. मु0अ0सं0 394/22 धारा 392 भा0द0वि0 थाना शाहगंज जनपद आगरा।
02. मु0अ0सं0 400/22 धारा 393 भा0द0वि0 थाना शाहगंज जनपद आगरा।

नोट:- अभियुक्त के पूर्व आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

01. 01 अदद मोटरसाइकिल (घटना में प्रयुक्त)।

पुलिस टीम का विवरण:-

01. प्रभारी निरीक्षक श्री जसवीर सिंह थाना शाहगंज जनपद आगरा।
02. निरीक्षक कुलदीप दीक्षित प्रभारी एसओजी टीम जनपद आगरा।
03. उ0नि0 श्री अमन कुमार, उ0नि0 श्री अमित कुमार, उ0नि0 श्री अंकुर मलिक थाना शाहगंज जनपद आगरा।
04. है0का0 सूर्यप्रताप, है0का0 वीरेन्द्र चौहान, है0का0 आशीष शुक्ला, का0 मुकुल शर्मा, का0 विपिन कुमार, का0 मानवेन्द्र, का0 राकुल, का0 लोकेश कुमार, चालक औसान सिंह एसओजी टीम जनपद आगरा।
05. है0का0 उमेश, है0का0 अरविन्द, का0 श्रीकान्त थाना शाहगंज जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।